



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 20.11.2022

1-थाना फेस 2 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस द्वारा दो लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाईल फोन, 01 मोटरसाइकिल स्पेलन्डर , 01 तमंचा मय 01जिन्दा कारतूस 315 बोर, व 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक- 20.11.2022 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा दो शातिर लुटेरे 1.महेश पुत्र लखपत निवासी महरकुंज संजय विहार कुलेसरा थाना ईकोटेक 3 नोएडा 2.विजय पुत्र विनोद निवासी संजय विहार निवासी आईडियल पब्लिक स्कूल के पास कुलेसरा थाना ईकोटेक 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर को निम्मी विहार कट थाना फेस-2 से गिरफ्तार किये गये है। अभियुक्तों के कब्जे से एक मोबाइल फोन रेड मी , एक मोटरसाइकिल स्पेलन्डर एनएसजी रंग काला , एक तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

अभियुक्त शातिर किस्म के लूटेरे है जो एनसीआर क्षेत्र में राह चलते लोगो से मोबाइल फोन छीनते है और उन्हे सस्ते दामो में बेचकर अवैध धन अर्जित करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.महेश पुत्र लखपत निवासी महरकुंज संजय विहार कुलेसरा थाना ईकोटेक 3 नोएडा
- 2.विजय पुत्र विनोद निवासी संजय विहार निवासी आईडियल पब्लिक स्कूल के पास कुलेसरा थाना ईकोटेक 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0स0-660/2022 धारा 411/414 भादवि थाना फेस 2 से0नो0
- 2.मु0अ0स0-661/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 2
- 3.मु0अ0स0-520/2020 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर
- 4.मु0अ0स0-444/2022 धारा 392/411 भादवि थाना फेस 2
- 5.मु0अ0स0- 498/2022 धारा 414/482 भादवि थाना फेस 2
- 6.मु0अ0स0- 499/2022 धारा - 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 2

बरामदगी का विवरण-

- 1.01 मोबाइल फोन रेड मी सम्बन्धित मु0अ0स0-444/2022 धारा 392/411 भादवि थाना फेस-2

2. 01 मोटरसाइकिल स्पेलन्डर रंग काला रजि0नं0 यू पी 13 आर 2521

3.01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

4.दो फर्जी नम्बर प्लेट



#पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत को यातायात माह के दौरान यातायात पुलिस द्वारा नोएडा प्रवेश द्वारा पर वर्ल्ड रिमैम्बरेन्स-डे के रूप में मनाया गया।

दिनांक 20.11.2022 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में विभिन्न सडक दुर्घटनाओं में मृतक व्यक्तियों के शोक में 02 मिनट का मौन धारण किया गया तथा मोमबत्तिया जलाकर श्रद्धाजंलि दी गयी। इस कार्यक्रम में यातायात पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगणों के साथ विभिन्न एनजीओ, ट्रेफिक वालिन्टियर, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों एवं अन्य जागरूक नागरिक भी मौजूद रहें।

सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगो को विभिन्न माध्यमों के द्वारा जागरूक तथा प्रवर्तन की कार्यवाही लगातार की जा रही है।

